



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22--नवम्बर 28 2003 (अग्रहायण, 1 1925)
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22--NOV 23, 2003 (AGRAHAYANA 1, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी आदेशों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० ए-34011/2/01-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एम० जयराम, को 4 नवम्बर, 2003 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० ए-19014/5/2003-प्रशा०-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री हरविन्दर सिंह को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (परिवार कल्याण विभाग) से उनके स्थानांतरण के परिणामस्वरूप, मंत्रिमंडल सचिवालय में 30 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से 7 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

मुनील मिश्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2003

सं० एफ-6(1847)/2002-प्रशासन-1--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के कारण, आई०ई०एस० के जे०ए०जी० अधिकारी तथा योजना आयोग में उप सलाहकार, श्री यू० एस० पीपल दिनांक 30-09-2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसी तिथि से पदभार त्याग दिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर 2003

सं० एफ-6(1885)/2003-प्रशा०-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 30-09-2003 के कार्यालय आदेश सं० 11016/1/2001-आई०ई०एस० के अनुपालन में श्रीमती प्रभा रानी खुराना ने दिनांक 30-09-2003 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में

12000-375-16500/- रु० के धेतनमान में उप सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 15 अक्टूबर 2003

सं० ए-12025/8/2002-प्रशा०-I—योजना आयोग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2002 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में योजना आयोग में तदर्थ संयुक्त सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग) श्री बी०के० तिवारी को दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न में योजना आयोग में उप सलाहकार (उर्वरक) के उनके नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य अधिकारी ने दिनांक 15-10-2003 (पूर्वाह्न) योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग) का पद भार ग्रहण कर लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/19/2002-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित उप सलाहकार (इंजीनियरी) श्री एम० एम० चन्दा को योजना आयोग में 14300-400-18300/- रु० के धेतनमान में संयुक्त सलाहकार (उपभोक्ता उद्योग) के पद पर नियमित पदोन्नति आधार पर दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न में दिनांक 03-09-2005 तक अथवा उक्त पद के नियमित पदधारी के योजना आयोग में प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/23/2002-प्रशा०-I—योजना आयोग के दिनांक 21 जनवरी, 2003 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में योजना आयोग में तदर्थ उप सलाहकार (उर्वरक) डॉ० पीतम सिंह को दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न में योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (रसायन) के उनके नियमित पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है क्योंकि उक्त पद के नियमित पदधारी को दिनांक 15 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न में उनके मृत्यु पर परिवर्तित कर दिया गया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए-12025/10/98-प्रशा०—योजना आयोग की दिनांक 28-4-2003 की सम संख्यक अधिसूचना के क्रम में योजना आयोग के निम्नलिखित पांच नियमित अनुसंधान अधिकारियों की जीसीएस के रिक्त पदों पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में हुई तदर्थ नियुक्ति की अवधि को एतद्द्वारा दिनांक 1-9-2003 से अगले छः महीने के लिए अथवा नियमित आधार पर पदों के

भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है :—

1. श्रीमती प्रमिला वादव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना)
2. श्री प्रेम सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन)
3. डॉ० (श्रीमती) पूनम श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (समाजशास्त्र/सामाजिक आयोजना)
4. श्री आर० सी० मीणा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (शैक्षिक आयोजना)
5. श्री के० पी० सिंह, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक अनुसंधान)

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति से इन अधिकारियों को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा यह भी कि उनके द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर प्रदान की गई सेवा की गणना न तो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता निर्धारण हेतु और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पावता के लिए की जाएगी।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/10/98-प्रशा०-II—योजना आयोग की दिनांक 06-1-2003 की अधिसूचना सं० ए-12025/11 (II)/2002-प्रशा०-II के क्रम में, योजना आयोग के नियमित अनुसंधान अधिकारी श्री अमर सिंह की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) के रिक्त जी० सी० एस० पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि एतद्द्वारा 29-2-2004 या पद पर नियमित नियुक्ति या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति श्री अमर सिंह को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती और साथ ही वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं न तो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उनकी वरिष्ठता हेतु मान्य होंगी और न ही अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी पदोन्नति की पावता हेतु मानी जाएगी।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/10/98-प्रशा०-II—योजना आयोग की दिनांक 10-6-2002 की अधिसूचना सं० ए-12025/6/2002 के क्रम में, योजना आयोग के नियमित अनुसंधान अधिकारी श्री बी० पी० गर्ग की वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) के रिक्त जी० सी० एस० पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि एतद्द्वारा 29-2-2004 या पद पर नियमित नियुक्ति या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह तदर्थ नियुक्ति श्री बी० पी० गर्ग को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती और साथ ही वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदान की

गई सेवाएं न तो वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उनकी वरिष्ठता हेतु मान्य होंगी और न ही अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी पदोन्नति की पात्रता हेतु मानी जाएगी,

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए० 12025/18/2001-प्रशासन-1 :—योजना आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों के आगे सूचित विभिन्न अधिसूचनाओं के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग के निम्नलिखित सामान्य केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों की उनके नामों के आगे पूर्वापद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 31-03-2004 तक अथवा उक्त पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पद का नाम जिस पर नियुक्त है	पूर्व अधिसूचना की सं० और तिथि
1.	श्री एस० जी० राऊत	संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग)	ए-12025/18/2001-प्रशा०-1 दिनांक 23 जुलाई, 2003।
2.	श्री एस० के० साहू	संयुक्त सलाहकार (श्रम और रोजगार)	ए-12025/16/2001-प्रशा०-1, दिनांक 13 अगस्त, 2003।
3.	श्री एम० रवीन्द्रनाथ	संयुक्त सलाहकार (पर्यावरण और वन)	ए-12025/8/2002-प्रशा०-1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002।
4.	श्री अलबेल कच्छप	उप सलाहकार (शिक्षा)	ए-12025/17/98-प्रशा०-1, दिनांक 8 अगस्त 2003।
5.	श्री डी० बंनर्जी	उप सलाहकार (रसायन)	ए-12025/22/2002-प्रशा०-1, दिनांक 5 दिसम्बर, 2002।
6.	श्री शशि कान्त	उप सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग)	ए-12025/18/2001-प्रशा०-1, दिनांक 23 जुलाई, 2003।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति के बल पर उपरोक्त अधिकारियों को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही उक्त पदों पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उस ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० एफ-6 (1886)/2003-प्रशासन-1—आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 6-10-2003 के कार्यालय आदेश सं० 13015/1/2002-आई० ई० एस० के तहत योजना आयोग में उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, आई० ई० एस० के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी श्री एस० ए० नेगी ने दिनांक 20-10-2003 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में 14,300-400-18,300 रु० के वेतनमान में निदेशक का पदभार सम्भाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० ए-12025/18/2003-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूविज्ञान), श्री एच० पी० कन्नोजिया को योजना आयोग में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में उप सलाहकार (आंकड़ा बैंक) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30-10-2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस तदर्थ नियुक्ति के बल पर श्री कन्नोजिया को उप सलाहकार के पद पर नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जायेगा।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० ए-12025/21/2000-प्रशा०-I—योजना आयोग के दिनांक 20 अक्टूबर, 2003 के समसूचक अधिसूचना को आंशिक संशोधित करते हुए, श्री एम० सत्यभूति की योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (कोयला) के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि की गणना दिनांक 08-09-2001, अर्थात् उनकी कृषक और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री करिया मुण्डा) के निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने की तिथि से होगी तथा तदनुसार योजना आयोग में उनकी प्रतिनियुक्ति दिनांक 07-09-2006 तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, होगी।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/21/2000-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्रम मंत्रालय के खान सुरक्षा निदेशालय में खान सुरक्षा उप निदेशक (खनन) श्री एम० सत्यभूति, योजना आयोग में 14300-400-18300 रु० के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (कोयला) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/2/2002-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, अनुसंधान अधिकारी (परिवहन अर्थशास्त्र) श्री अन्तर सिंह को 10000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना मूल्यांकन) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 3-11-2003 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि तक अथवा नियमित पदाधिकारी के जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री अन्तर सिंह को वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उनकी तदर्थ नियुक्ति की अवधि वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेड में उनकी वरिष्ठता हेतु मान्य होगी।

के० के० छावड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० ए-32013/7/2002-प्रशा०-I (वि० वि०)—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में कार्यरत श्री जे० डी० काले, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) को दिनांक 3 नवम्बर 2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड में रु०

14300-400-18300 के वेतनमान में अपर विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) के रूप में कार्य करने हेतु सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम० दास, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० ए-12023/13/2003-प्रशा०-II (वि० का०)—राष्ट्रपति, डॉ० के० एन० चतुर्वेदी को, जो वर्तमान में विधायी विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, दिनांक 29 अक्टूबर 2003 (पूर्वाह्न) से विधि आयोग के सदस्य-सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी० आर० मीना, संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० के-13017/2/2003-यू एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (1) न्यायविद् श्री सुनील कुमार कर और (2) श्री इकबाल अहमद अन्सारी को उसी वरीयता क्रम में अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० के 13024/3/2002-यू एस०-I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री एन० कन्नादासन को अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डी० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

सं० के-13023/5/2003-यू एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) के परस्तुत (क) के अनुसरण में, न्यायविद् श्री निर्मल कुमार जैन ने 30 सितम्बर, 2003 के अपराह्न से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

डी० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० के-13025/1/2003-यू एस०-II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, श्री मदन मोहन दास को अपना

कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

डा० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० 14046/411/2002-यू० टी० एस०-II—संयुक्त सचिव (यू० टी०), गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा के ग्रेड-II अधिकारी श्री अर्जुन सिंह द्वारा ली गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को दिनांक 1 नवम्बर, 2003 से स्वीकार कर लिया है।

एन० जे० थॉमस, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० 14031/1/2003-यू० टी० एस०—अरुणाचल प्रदेश गोवा-निजोरम-तंज राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1986 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री राजिन्दर सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करण पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० 20/जी/2502-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, डॉ० पी० के० सेठ, (सी० एस० एस०) को न्याय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप दिनांक 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2003

सं०-ए-32013/13/2003 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री अरुण भटनागर, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मध्य प्रदेश : 66) को दिनांक नवम्बर 03, 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी० के० वेल्लकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर 2003

सं० 13017/13/2001-आ० भा० से०-I—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 6(1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सरकारों की सहायता से, एतद्वारा उत्तर प्रदेश संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री सत्यजीत ठाकुर, (आर.आर. : 85) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में तीन वर्ष की अवधि को प्रतिनियुक्ति अनु-मोदित करती है। प्रतिनियुक्ति को सत्यजीत ठाकुर द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु रिपोर्ट किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी।

पी० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० 4(15)/2002-करसी-III (बीएनपी)—राष्ट्रपति, श्री के० के० शर्मा को जो इस समय बैंक नोट प्रेस, देवास में 8000-13500 रु० के पैमाने में इंजीनियर (सिविल) के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं, बैंक नोट प्रेस, देवास में 8-10-2003 के पूर्वाह्न से अगली आदेशों तक 10000-15,200/- रु० के पैमाने में पंजीकरण इंजीनियर के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

पी० के० शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 03 नवम्बर 2003

सं० ए० 19011/15/2003-प्रशा०-II—राष्ट्रपति श्रीमती धारिणी मिश्र, भारतीय सूचना सेवा को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 21-10-2003 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर एक वर्ष या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अवर सचिव (सीडिआ प्रकोष्ठ) नियुक्त करते हैं।

आई० सी० काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ए० 19011/10/2001-प्रशा०-2—राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उपसचिव डा० (सुश्री) प्रफुल्ला केरकेट्टा, सीएसएस, को उती विभाग में 30-10-2003 (पूर्वाह्न) से उनके कार्यकाल की शेष अवधि जो कि 13-05-2008 तक हैं, के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करते हैं।

आई० सी० काम्बोज, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 2003

सं० टी-49015/2/2002-वागान (क)—राष्ट्रपति द्वारा श्री आर० एस० शुक्ला, आईएस (प० बं० : 86) को

13 अक्टूबर 2003 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर टी-बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पी० वी० शिवरामन, अवर सचिव

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं. ए-32019/1/2002 संवर्ग—राष्ट्रपति, इस विभाग के निम्नलिखित अधिकारी के नाम को, 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में, उनके नाम के सामने यथा इंगित वर्ष की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अवर सचिवों की प्रवरण सूची में शामिल करते हैं;

क्रम सं०	केन्द्रीय प्रवरण सूची	नाम	प्रवरण सूची वर्ष
1.	3528	एस० जे० सेवैस्टियन	1994

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपर्युक्त अधिकारी का यह समावेशन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापान संख्या 4/13/2001-सी०एस० I, दिनांक 12 अगस्त, 2002 के अनुपालन में किया गया है और यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में उपर्युक्त अधिकारी का वरिष्ठता का क्रम, प्रवरण सूची में उनके समावेशन के आदेश के अनुसरण में होगा, चाहे ग्रेड-I पर उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि कोई भी हो।

(ii) उपर्युक्त प्रवरण सूची से अवर सचिव के पद पर अधिकारी की यह नियुक्ति, डॉ० ए० आर० गोयल व अन्य और श्री आर० के० ओझा व अन्य बनाम भारत संघ सरकार द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण, प्रधान न्यायपीठ में दायर ओ० ए० सं० 2274/2001 और 2477/2001 में अंतिम निर्णय के शर्तबद्ध होगी।

(iii) चूंकि प्रवरण सूची को इस प्रकार के पैनलों के लिए निर्धारित अवधि के भीतर नहीं बनाया जा सका, अतः इस नियुक्ति को वैचारिक आधार (नोशनल बेसिस) पर अवर सचिव के रूप में अनुमोदित सेवा और वेतन निर्धारण के उद्देश्य के लिए संबंधित प्रवरण सूची वर्ष की 1 जुलाई से प्रभावी हुआ माना जाएगा। तथापि, वैचारिक आधार (नोशनल बेसिस) पर उच्चतर वेतन का वास्तविक लाभ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से आदेशित, तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में हुई उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से प्राप्त होगा।

(iv) संबंधित अधिकारी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से आदेशित तदर्थ आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में हुई अपनी वास्तविक नियुक्ति की तिथि से वेतन का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण बकाया राशि लेने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, संबंधित अधिकारी, वित्तीय नियम-22 के उपबंधों के तहत अपने वेतन को निर्धारित करवाने के लिए विकल्प का लाभ लेने के लिए भी पात्र होंगे। तथापि, वे अधिकारी, जिन्हें अपने प्रवरण सूची वर्ष की 1 जुलाई से पहले तदर्थ अवर सचिव के रूप में प्रोन्नत किया गया था तथा जिन्होंने विखंडित विकल्प (स्पलिट आपशन) का लाभ ले लिया था, फिर से विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

एस० दास, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2003

सं० ए-32011/5/2002-स्थापना—राष्ट्रपति, इस विभाग के नियमित उपा औद्योगिक सलाहकार, श्री टी० मदनेश्वर को 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में 1 अप्रैल, 2002 से आगामी आदेशों तक सभी अनुवर्ती लाभों सहित संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० पी० वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० 12/8/2003-ए० एस० ओ०—राष्ट्रपति द्वारा श्री लक्ष्मी चन्द, भा० प्र० सेवा (उ० प्र० : 69) को अपर सचिव के पद को अस्थाई तौर पर पदोन्नयन करके दिनांक 3-11-2003 से अगले आदेश तक कोयला मंत्रालय में, रु० 21,000 (नियत) के वेतनमान में, विशेष सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

टी० के० घोष, निदेशक

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० 5(5)/2003-स्थापना—जल संसाधन मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन होने पर श्री विनोद कुमार दुग्गल, भा० प्र० सेवा (ए०जी०एम०यू० : 68) को 4-11-2003 (पूर्वाह्न) से इस्पात मंत्रालय के सचिव के कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

अनीता प्रवीण, निदेशक

सं० 5(8)/2003-स्थापना- राष्ट्रपति, श्रीमती वीनू सेन, भा० प्र० सेवा (एम० पी० : 67), को 4-11-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनीता प्रवीण, निदेशक

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

मिसिल सं० ए-17011/2/2001-प्रशासन-—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक श्री ए० के० राय को 13 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध हो जाने तक, जो भी पहले हो, 8000-275-13500 रूप० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

उक्त तदर्थ नियुक्ति से श्री ए० के० राय को सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में पदोन्नति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए-12012/10/2003-स्थापना-—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित वैयक्तिक सहायक श्री कमल किशोर को 13-10-2003 से 28-11-2003 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर 6500-200-10500 रूप० के वेतनमान में आशुलिपिक ग्रेड “क” और “ख” (विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री कमल किशोर को आशुलिपिक ग्रेड “क” और “ख” (विलयित) में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० ए-43011/26/99-प्रशा०-—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 28-10-2003 के आदेश संख्या 13015/2/2003-आई ई एस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, श्री डी० के० मुखोपाध्याय, भा० आ० से० 1971 को 31 अक्टूबर, 2003 के अपराह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 18400-500-22400 रूप० के वेतनमान में आर्थिक सलाहकार (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

मिसिल सं० ए-12011/14/2002-प्रशा० : राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक श्री ए० के० शर्मा को 30 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध हो जाने तक, जो भी पहले हो, 8000-275-13500 रूप० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

उक्त तदर्थ नियुक्ति से श्री ए० के० शर्मा को सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में पदोन्नति, वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

एस० के० नायक अवर, सचिव,

दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ए०-32012/1/2002-प्रशा०-—राष्ट्रपति, श्री डी० सी० देवगुण, नियमित सहायक को 5 नवम्बर, 2003 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6500-200-10500/- रूप० के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री डी० सी० देवगुण को अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित पदोन्नति, वरिष्ठता आदि के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

एस० के० नायक, अवर सचिव

सं० ए०-12011/9/2003-प्रशा०-—राष्ट्रपति, श्री ए० एस० खान, नियमित सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) को 31-10-2003 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद को नियमित आधार पर भर लिए जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निदेश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर पदोन्नत करते हैं। क्षेत्रीय निदेश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद में उप निदेशक का पद अस्थायी रूप से नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री ए० एस० खान को उप निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एस० के० नायक, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० 12022/1/95-स्था०-—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22-10-2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/18/2003-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में केन्द्रीय

सचिवालय सेवा (एस जी एल एन : 90) के नियमित अवर सचिव श्री चरणजीत सिंह बुराना को 5 नवम्बर 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नाथक, अवर सचिव

मिसिल सं० ए-12022/3/96-प्रशा०-राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक (राजभाषा) श्रीमती प्रियम्बदा को दिनांक 30-10-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नाथक, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 28 अक्टूबर 2003

सं० ए-12023/06/96-प्रशा०-1 (ए)---इस विभाग की दिनांक 13 नवम्बर, 2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, श्री ब्रह्म पाल सह्यायक लेखा अधिकारी, लेखा नियंत्रक का कार्यालय की 7450-225-11,500/-रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में 8 अक्टूबर, 2003 से आरम्भ एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनिधित्व की अवधि बढ़ाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का संस्वीकृति जारी की जाती है। बड़ी हुई अवधि के समापन के पश्चात्, श्री ब्रह्म पाल अपने पतक संवर्ग में चले जाएंगे।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110016, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए-19011/03/91-प्रशा०-1 (ए)---राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी अविद्यता की जागू प्राप्त करने पर 31-10-2003 (अपरह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं:--

1 डा० ए० के० चक्रवर्ती, वैज्ञानिक "जी"

2 डा० ए० बनर्जी, वैज्ञानिक "जी"

के० एस० नेपोलियन, निदेशक

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अक्टूबर 2003

सं० 17013/1./99 शा० व० संश-II—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के

विनियम 9 के उपविनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए राजस्थान राज्य वन सेवा के अधोलिखित 12 अधिकारियों को वर्ष 1999, 2000, 2001, 2002 एवं 2003 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के तहत भारतीय वन सेवा का राजस्थान संवर्ग आवंटित करते हैं:--

चयन सूची, 1999

क्र० सं०	नाम	जन्म-तिथि
(सर्वश्री)		
1.	श्री बेनी राम	5-3-1947

चयन सूची, 2000

क्र० सं०	नाम	जन्म-तिथि
(सर्व श्री)		
1.	सुभाष चन्द शर्मा	15-8-1951
2.	जी० पी० डी० व्यास	21-3-1950
3.	वी० एन० शर्मा	31-7-1950

चयन सूची, 2001

क्र० सं०	नाम	जन्म-तिथि
(सर्वश्री)		
1.	सुनयन शर्मा	3-3-1950
2.	एन० सी० बकोलिया	1-9-1949
3.	ओ० पी० शर्मा	3-7-1947

चयन सूची, 2002

क्र० सं०	नाम	जन्म-तिथि
(सर्वश्री)		
1.	वी० के० सलवान	20-11-1948
2.	के० सी० शर्मा	31-5-1951
3.	आर० एस० शेखावत	30-10-1958

चयन सूची, 2003

क्र० सं०	नाम	जन्म-तिथि
(सर्व श्री)		
1.	आई० ए० मुगल	30-11-1955
2.	जी० पी० सक्सेना	17-4-1951

अशोक कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[(स्वास्थ्य विभाग)]

नई दिल्ली-11, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12025/180/94-सी एच एस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० एम० एस० खुर्रुशेव को 21 सितम्बर 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० एम० एस० खुर्रुशेव को श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए-12025/120/99-सी एच एस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० मोहन दास कुमार को 29 अप्रैल 2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० मोहन दास कुमार को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ए०-12025/465/92-सी०एच०एस०-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० राकेश कुमार को 9-11-1992 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० राकेश कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० ए०-38012/9/2000-सी० एच० एस०-II—अधि-विधायक की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप डा० (श्रीमती) सुषमा वशिष्ठ, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में सुपरटाइम ग्रेड की अधिकारी

2-332 GI/2003

ने 30-5-2003 (अप्रकाश) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस० ए० जी०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एन० के० सरवाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2003

सं० 44011/8/2003-स्था०-1—राष्ट्रपति, व्यक्तिगत तौर पर प्रोन्नत और सचिव के पद पर 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान पर कार्यरत श्री आर० एस० सिरोहीवाल, (सी० एस०एल० सं० 3979) को 28-8-2003 से सी०एस०एल० ग्रेड-1 की चयन सूची के तैयार होने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड-1 के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को मात्र इस तदर्थ नियुक्ति के आधार पर सी०एस०एस० के ग्रेड-1 चयन सूची में नाम शामिल कराने का अधिकार नहीं होगा और न ही उन्हें इस नियुक्ति के आधार पर सी०एस०एस० के ग्रेड-1 की चयन सूची में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार होगा।

के० डी० उप्रेती, अवर सचिव

पशुपालन और डेयरी विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० 5-19/93-मत्स्यकी (प्रशासन)--राष्ट्रपति, डा० पी० प्रेमलता, मत्स्यकी अधिकारी को समेकित मत्स्यकी परियोजना में 8000-2575-13500/-रुपए के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक, सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अनुसचिवीय) के पद पर 7-10-2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

आर०के० मेहता, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12021/5/1998 स्था०-II—राष्ट्रपति द्वारा श्री सुभाष चन्द्र को इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा संवर्ग में दिनांक 20-5-2003 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एच०सी० बाबेजा, अवर सचिव

सं० 12021/5/1998-स्था०-II—राष्ट्रपति द्वारा श्री एन० सी० बाबेजा को इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में दिनांक 4-1-2003 (पूर्वाह्न) से 10000-325-15200/- रुपये के वेतनमान में तत्त्व आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एच० सी० बाबेजा, अवर सचिव

सं० ए०-12021/1/1999-स्था०-II—राष्ट्रपति महोदय श्री वई० पी० सवदेवा को इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर 12000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 15-10-2003 (पूर्वाह्न) से बरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच० सी० बाबेजा, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 13 अक्टूबर 2003

सं० ए०-12025 (1)/1/2000-स्थापना:—राष्ट्रपति, एन० आई० एस० डी०, नई दिल्ली में स्वायत्त प्राध्यापक श्री एम० गुनील कुमार को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के नशीली दवा दुरुपयोग निवारण प्रभाग में वेतन मान रु० 10,000-325-15,200 (सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप-ए, राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 06-10-2003 से 05-10-2006 तक तीन वर्षों की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उक्त निदेशक (कंपेक्ता) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2003

सं० 17014/32/96-एस० सी० डी०-4—राष्ट्रपति, श्री ए० लुईखाम, भा० प्र० से० (एमटी-1981) को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक के पद से दिनांक 9 नवम्बर 2003 (अपराह्न) से कार्यमुक्त करते हैं।

2. श्री ए० लुईखाम, भा० प्र० से० (एमटी-1981) को उनके कार्यकाल की समाप्ति पर कामिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 87(38)-ईओ/87 (एसएम) दिनांक 20-5-1987 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार 10-11-2003 से 9-1-2004 तक की अवधि के लिए अर्जित छुट्टी भी मंजूर की जाती है।

3. श्री ए० लुईखाम की छुट्टी की समाप्ति पर उनकी सेवाएं दिनांक 10-1-2004 (पूर्वाह्न) से मणिपुर सरकार की सौंपी जाती हैं।

हसीब अहमद, निदेशक

सं०-16011/02/2002-एस० सी० डी०-4—राष्ट्रपति, एन० एस० एफ० डी० सी० के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56 के अनुसार श्री मृत्युंजय साहू, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को श्री निरंजन पंत, पूर्व संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

हसीब अहमद, निदेशक

फा० सं० 17014/01/2003-एस० सी० डी०-4—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 56(1) तथा (3) के अनुसरण में श्री पी० नारायण भूति, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 10-11-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

श्री पी० नारायण भूति मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अपने वर्तमान कार्य के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार श्री ए० लुईखाम, जिन्होंने दिनांक 9-11-2003 को अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार छोड़ा है, के स्थान पर कार्यभार संभालेंगे।

हसीब अहमद, निदेशक

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० 4(667)/2000-कामिक-I—अपना कार्यकाल पूरा करने पर, श्री कैलास एन० गुप्ता, दिनांक 31-10-2003 के अपराह्न से प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक का कार्यभार छोड़ देंगे।

एस० लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 नवम्बर 2003

सं० 400-52/2002-एसटीजी-II—भारतीय दूरसंचार सेवा समूह "क" के मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड के अधिकारी श्री आई० सी० श्रीवास्तव (स्टाफ सं० 273) जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुम्बई में कार्यकारी निदेशक के बतौर कार्य कर रहे थे, उनका 07-10-2003 को स्वर्गवास हो गया है।

डा० विसेंट बारला, अवर सचिव

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्टूबर 2003

सं० ए-19011/4/2003-स्था०—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 अक्टूबर 2003 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/28/2003-ई०ओ० (एम०एम०-1) के अनुसरण में सुश्री अलका झा, आई पी ओ एस (87) ने दिनांक 31-10-2003 (अपराह्न) से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

कृष्ण चन्द गुप्ता, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2003

सं० ई आर बी-1/2000/1/28—श्री के० बी० सिंह, अनुभाग अधिकारी, रेलवे बोर्ड का 25-9-2003 को निधन हो गया है।

आर० आर० भंडारी, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं० ई आर बी-1/2003/2/97—श्री के० सुब्रमणियन, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के निदेशक ग्रेड अधिकारी को, 30-10-2003 के पूर्वाह्न से, 18400-22400/-रु० के ग्रेड में कार्यपालक निदेशक स्थापना (राज० संवर्ग), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० भंडारी, सचिव,
रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव

सं० ई आर बी-1/2003/2/98—श्री ए० के० बागची, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी को, 30-10-2003 के पूर्वाह्न से, 22400-24500/- रु० के ग्रेड में सलाहकार (गोपनीय), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० भंडारी, सचिव
रेलवे बोर्ड के पदेन अपर सचिव

दिनांक 6 नवम्बर 2003

सं० ई आर बी-1/2003/2/78—श्री अरुण दुबे, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा को 28-10-2003 के अपराह्न से 24050-26000/- रु० के ग्रेड में अपर सदस्य (क० एवं सु० प्र०), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर० आर० भंडारी, सचिव
रेलवे बोर्ड के पदेन अपर सचिव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० ए-32011/2/2003-स्था०-II(ख)—सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी श्री पी० के० स्वेन, प्रारूपकार श्रेणी-I, को मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 31-10-2003 (पूर्वाह्न) से मुख्य प्रारूपकार के पद पर तदर्थ आश्रय पर रु० 6500-200-10500 के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

ए० पी० पाड़ी, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 2003

सं० 8/2003 फाईल सं० 22/494/2002 प्रशा०-I—श्री ए० के० गोस्वामी भारतीय प्रशासनिक सेवा (हि०प्र०:1966) सचिव (जल संसाधन) द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप दिनांक 31-10-2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

नरेश कुमार गुप्ता,
अवर सचिव

दिनांक 4 नवम्बर 2003

सं० 9/2003 फाईल सं० 2/4/2001 प्रशा०-I—राष्ट्रपति, श्री वी० के० दुग्गल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयू : 1968) को दिनांक 4-11-2003 के पूर्वाह्न से 26,000/- रुपए (नियत) के वेतनमान में अगले आदेशों तक, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता,
अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 नवम्बर 2003

सं० 4/6/2003-प्रशा०-II—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्रेणी-I अधिकारी श्री डी० विद्यार्थी को केन्द्रीय सिविल

सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत दिनांक 05-11-2003 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं।

वी० के० सेखड़ी, अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2003

सं० ए-19011/1/2003-सी एल एस-II—राष्ट्रपति, श्रीकांत शुक्ल, पीठासीन अधिकारी, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, लखनऊ को 30 अक्टूबर, 2003 के पूर्वाह्न से, नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, जबलपुर के पीठासीन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपते हुए नियुक्त करते हैं।

वाई० पी० सहगल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 04th November 2003

No. A. 34011/2/01-Adm.—Shri M. Jayaraj is appointed as Private Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 4th November, 2003.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th October 2003

No. A-19014/5/2003-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Harvinder Singh, CSS as under Secretary in the Cabinet Secretariat, consequent upon transfer from Ministry of Health & Family Welfare (Department of Family Welfare), with effect from forenoon of 30th October, 2003 for a period of seven years or until further orders.

SUNIL MISHRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th September 2003

No. F. 6(1847)/2002-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri U. S. Pipal, a JAG officer of IES and Deputy Adviser, Planning Commission retires from Government service w.e.f. 30.09.2003 (A. N.) and consequently he has relinquished charge from that date.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 7th October 2003.

No. 6(1885)/2003-Adm. I—In pursuance of Deptt. of Economic Affairs' Order No. 11016/1/2001-IES dated 30.9.2003, Smt. Prabha Rani Khurana has assumed charge as Deputy Adviser in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 w.e.f. 30.9.2003(FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 15th October 2003

No. A-12025/8/2002-Adm. I—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 16th October 2002, Shri B. K. Tiwary, ad-hoc Joint Adviser (Consumer Industries), Planning Commission stands reverted to his substantive post of Deputy Adviser (Fertilizers), Planning Commission w. e. f. the forenoon of 15th October, 2003 as another officer recommended by the UPSC for appointment as Joint Adviser (Consumer Industries) assumed charge w.e.f. 15.10.2003(FN).

3—332 GI/2003. K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/19/2002-Adm. I—The President is pleased to appoint Shri M. M. Chanda, a regular Deputy Adviser (Engineering), Planning Commission as Joint Adviser (Consumer Industries) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 on regular promotion basis w. e. f. the forenoon of 15th October, 2003 for the period upto 03.09.2005 or till the regular incumbent of the post gets repatriated to the Planning Commission or until further orders, whichever is the earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/23/2002-Adm. I—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 21st Jan., 2003, Dr. Pitam Singh, ad-hoc Deputy Adviser (Fertilizers), Planning Commission stands reverted to his substantive post of Senior Research Officer (Chemicals), Planning Commission w.e.f. the forenoon of 15th October, 2003 as the regular incumbent of the post has been reverted to the post in question w.e.f. 15.10.2003(FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 29th October 2003

No. A. 12025/10/98-Adm. II—In continuation of Planning Commission's Notification of even Number dated 28.4.2003, the term of ad-hoc appointment of the following five regular Research Officers of the Planning Commission as Senior Research Officers against the vacant GCS posts is hereby extended for another six months w. e. f. 1.9.2003 or until the posts get filled on regular basis or until further orders, whichever is the earlier :—

1. Smt. Promila Yadava, SRO (Educational Planning).
2. Shri Prem Singh, SRO (Project Appraisal).
3. Dr. (Smt.) Punam Srivastava, SRO (Sociology/ Social Planning).
4. Shri R. C. Meena, SRO (Educational Planning).
5. Shri K. P. Singh, SRO (Scientific Research).

2. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow on any of these Officers any claim for regular appointment in the grade of Senior Research Officer and also that any service rendered by any of them on ad-hoc basis in the grade of Senior Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/10/98-Adm. II—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-12025/11 (II)/2002-Adm. II dated 6.1.2003, the term of ad-hoc appointment of Shri Amar Singh, A regular Research Officer of the Planning Commission against the vacant GCS post of Senior Research Officer (Project Appraisal) is hereby extended for the period upto 29.2.2004 or until the post gets filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow upon Shri Amar Singh any claim for regular appointment in the grade of Senior Research Officer and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Senior Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/10/98-Adm. II—In continuation of Planning Commission's Notification No. A-12025/6/2002-Adm. II dated 10.6.2002, the term of ad-hoc appointment of Shri V. P. Garg, A regular Research Officer of the Planning Commission against the vacant GCS post of Senior Research Officer (Project Appraisal) is hereby extended for the period upto 29.2.2004 or until the post gets filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow upon Shri V. P. Garg any claim for regular appointment in the grade of Senior Research Officer and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Senior Research Officer would neither count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/10/98-Adm. I—In continuation of Planning Commission's earlier Notification's as indicated against each officer, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of the following GCS officers of the Planning Commission on the post shown against each for the period upto 31.3.2004 or till the respective posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest :—

Sl. No.	Name of Officer	Name of post to which appointed	Earlier Notification No. & Date
1	2	3	4
S/Shri			
(i)	S. G. Rao	Jt. Adviser (Village & Small Industries)	A. 12025/18/2001-Admn. I dated 23rd July, 2003.
(ii)	S. K. Saha	Jt. Adviser (Labour & Employment)	A. 12025/16/2001-Admn. I dated 13th August, 2003.
(iii)	M. Ravindra-nath	Jt. Adviser (Environment & Forest)	A. 12025/8/2002-Adm. I dated 28th October, 2002.
(iv)	Albel Kachhap	Dy. Adviser (Education)	A. 12025/17/98 Adm. I dated 8th August, 2003.
(v)	D. Banerjee	Dy. Adviser (Chemicals)	A. 12025/22/2002-Adm. I dated 5th December, 2002.
(vi)	Shashi Kant	Dy. Adviser (Village & Small Industries)	A. 12025/18/2001-Adm. I dated 23rd July 2003.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on the above mentioned officers any right to claim for regular appointment in that grade and also that any service rendered by them on adhoc basis in that grade would neither count for the purposes of seniority in that grade nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F. 6 (1886)/2003-Adm. I—Consequent on his posting in the Planning Commission vide Deptt. of Economic Affairs' Order No.13015/1/2002-IES dated 6.10.2003, Shri S. S. Negi, an NFSG officer of IES has assumed charge as Director in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 w.e.f. 20.10.2003 (FN).

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 30th October 2003

No. A-12025/18/2003-Adm. I—The President is pleased to appoint Shri H. P. Kannaujia, regular Senior Research Officer (Geology), Planning Commission as Deputy Adviser (Data Bank) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 on ad-hoc basis for a period of one year w.e.f. 30.10.2003 (FN) or until the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this ad-hoc appointment will not bestow on Shri Kannaujia any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on ad-hoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 3rd November 2003

No. A-12025/21/2000-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri M. Satyamurthy, a regular Deputy Director of Mines Safety (Mining), Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour as Joint Adviser (Coal) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 on deputation basis for a period of five years w.e.f. the afternoon of 17th October, 2003 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/21/2000-Admn. I—In partial modification of Planning Commission's Notification of even number dated 20th Oct. 2003, the period of deputation of Shri M. Satyamurthy on the post of Joint Adviser (Coal) in the Planning Commission shall count w. e. f. 08.09.2001, i. e. the date he has been on deputation as Private Secretary to the then Minister of Agro & Rural Industries (Shri Kariya Munda) and accordingly his term of deputation in the Planning Commission shall be upto 07.09.2006 or until further orders, whichever is earlier.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/2/2002-Adm. II—The President is pleased to appoint Shri Anar Singh, Research Officer (Transport Economics) as Senior Research Officer (Project Appraisal) in the Planning Commission in the pay scale of Rs. 10000-325-15200 on purely ad-hoc basis for the period of six months with effect from

03.11.2003 (FN) or till the regular incumbent joins, or until further orders whichever is the earliest.

2. The ad-hoc appointment will not bestow upon Shri Anar Singh any right to claim regular appointment to the post of Senior Research Officer nor shall the period of ad-hoc appointment count for the purpose of seniority in the grade of Senior Research Officer.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 4th November 2003

No. A-32013/7/2002-Admn. I (L. D.)—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri J. D. Kale, Deputy Legislative Counsel (Regional Language) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice of officiate as Additional Legislative Counsel (Regional Language) in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the said Wing of the Legislative Department, Minister of Law and Justice with effect from the forenoon of 3rd November, 2003 and until further orders.

M. DASS, Deputy Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 29th October 2003.

No. A-12023/13/2003-Admn. III (LA)—The President is pleased to appoint Dr. K. N. Chaturvedi, presently Additional Secretary, Legislative Department as Member-Secretary, Law Commission with effect from the forenoon of 29th October, 2003.

D. R. MEENA, Joint Secy. & Legal Adviser

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 31st October 2003

No. K. 13017/2/2003-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Justice Sunil Kumar Kar and (2) Shri Justice Iqbal Ahmed Ansari, Additional Judges of the Gauhati High Court, to be Judges of the Gauhati High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office,

DURGADAS GUPTA, Joint Secy.

New Delhi, the 5th November 2003

No. K. 13024/3/2002. US. I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Nallappa Reddiar Kannadasan, to be an Additional Judge of the Madras High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P. K. SETH, Joint Secy.

No. K. 13023/5/2003-US. II—Shri Justice Nirmal Kumar Jain, resigned from the office of the Judge, Madhya Pradesh High Court, in pursuance of proviso (a) of clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of September 30, 2003.

DR. P. K. SETH, Joint Secy.

The 7th November 2003

No. K. 13025/1/2003-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Madan Mohan Das, to be an Additional Judge of the Orissa High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P. K. SETH, Joint Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 29th October 2001

No. 14046/411/2002-UTS.-II—The Joint Secretary (Union Territories) in the Ministry of Home Affairs has accepted the voluntary retirement of Shri Arjun Singh, Grade-II officer of the NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service, in terms of rule 48 of the CCS (Pension) Rules, 1972, with effect from the forenoon of 1st November 2003.

N. J. THOMAS, Under Secy.

New Delhi-1, the 4th November 2003

No. 14031/1/2003-UTS—On attaining the age of superannuation, Shri Rajinder Singh, Indian Administrative Service Officer of 1986 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 31st October 2003.

K. K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the 5th November 2003

No. 20/G/2502-Ad. I—The President is pleased to appoint Dr. P. K. Seth, CSS, as Joint Secretary in the Department of Justice with effect from the afternoon of 31st October, 2003 until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)**

New Delhi, the 6th November 2003

No. A. 32013/13/2003-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Arun Bhatnagar, IAS (MP : 66), as Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions with effect from the forenoon of 3rd November, 2003, until further orders.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 10th November 2003

No. 13017/13/2001-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Chhattisgarh, the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Shri Satyajit Thakur, IAS (RR : 85) from IAS Cadre of Uttar Pradesh to the IAS Cadre of Chhattisgarh for a period of three years with effect from the date of his reporting for duty to the Government of Chhattisgarh.

K. K. SHARMA, Desk Officer

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)**

New Delhi, the 30th October 2003

No. 4/15/2002-Cy-II (BNP)—The President is pleased to appoint Shri K. K. Garg, presently working in Bank Note Press, Dewas as Engineer (Civil) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 8000-13500, to the post of Environmental Engineer in the scale of pay of Rs. 10000-15,200/- in the Bank Note Press, Dewas, on deputation basis w.e.f. 8.10.2003 (forenoon), and until further orders.

P. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 2003

No. A. 19011/15/2003-Admn. II.—The President is pleased to appoint Smt. Dharini Mishra, IIS, as Under Secretary (Media Cell) in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from 21.10.2003 (FN), on deputation basis, for a period of one year or until further orders, whichever event takes place earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

The 5th November 2003

No. A. 19011/10/2001-Admn. II—The President is pleased to appoint Dr. (Ms) Prafulla Kerketta, CSS, Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department with effect from 30.10.2003 (FN), for the balance period of her tenure i. e. upto 13.05.2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

I. C. KAMBOJ, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 29th October, 2003

No. T-49015/2/2002-Plant (A)—The President is pleased to appoint Shri R. S. Shukla, IAS (WB : 86) as Deputy Chairman, Tea Board on deputation basis for a period of two years with effect from 13.10.2003 or until further orders, whichever event takes place earlier.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 4th November 2003

No. A-32019/1/2002-Cadre—The President is pleased to include the name of undermentioned officer of this Department in the select List of Under Secretaries (Grade I of CSS) for the year as indicated against his name, in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- :—

Sl. No.	CSL No.	Name	Select List Year
1.	3528	M. J. Sebastian	1994

The inclusion of above CSS officer is in pursuance of DoP&T's O. M. No. 4/13/2001-CS. I dated the 12th August, 2002 and is subject to following conditions :

- The order of seniority of above officer in Grade I of CSS will follow the order of his inclusion in the Select List irrespective of the actual date of his appointment to grade I.
- The appointment of officer to the post of Under Secretary from the above Select List shall be subject to final decision in the O. A. Nos. 2274/2001 and 2467/2001 filed in the Hon'ble CAT, Principal Bench by Dr. A. R. Goyal and Others and Shri R. K. Ojha and Others Vs. Union of India.
- Since the Select List could not be drawn within the prescribed period for such panels, the appointment may be deemed to have been made effective from 1st July of respective Select List year for the purpose of approved service and fixation of pay as Under Secretary on a notional basis. However, the actual benefit of higher pay on account of notional re-

fixation will accrue from the date of his initial appointment as Under Secretary on ad-hoc basis ordered centrally by DoP&T.

- The officer would be entitled to arrears on account of re-fixation of pay from the date of his actual appointment to the grade of Under Secretary on ad-hoc basis ordered centrally by DoP&T. In addition, the officer shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of his pay under provisions of FR-22. However, such officers who were promoted as ad-hoc Under Secretary prior to the 1st July of their Select List year and had availed of the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

S. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 14th October 2003

No. A-32011/5/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri T. Madneshwar regular Deputy Industrial Adviser of this Department to the post of Joint Industrial Adviser in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- w. e. f. 1st April, 2002 and until further orders with all consequential benefits.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 3rd November 2003

No. 12/8/2003-ASO—The President is pleased to appoint Sh. Lakshmi Chand, IAS (UP :69) as Special Secretary in the Ministry of Coal in the scale of pay of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 3.11.2003 until further orders, by temporarily upgrading the post of Additional Secretary.

T. K. GHOSH, Director

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 4th November 2003

No. 5(5)/2003-Estt.—On his nomination for the appointment of Secretary, Ministry of Water Resources, Shri V. K. Duggal, IAS (AGMU : 68) is relieved of his duties of the office of Secretary, Ministry of Steel w. e. f. 4.11.2003(FN).

ANITA PRAVEEN, Director

No. 5(8)/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Binoo Sen, IAS (MP : 67) as Secretary, Ministry of Steel w. e. f. 4.11.2003(FN) and until further orders.

ANITA PRAVEEN, Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 30th October 2003

No. A-17011/2/2001-Estt.—The President is pleased to promote Shri A. K. Roy, regular Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- with effect from the forenoon of 13th October, 2003 for a period of one year or till a regular incumbent is available, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment would not bestow on Shri A. K. Roy any right to claim promotion, seniority etc. in the grade of Assistant Director (Legal Metrology).

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A. 12011/10/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Kamal Kishor, a regular P. A. of CSSS Cadre of Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs as Steno Grade 'A' & 'B' (merged) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- on purely ad hoc basis w. e. f. 13.10.2003 to 28.11.2003 or till a regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment would not bestow on him any right to claim regular appointment, seniority, etc. in the grade of Steno 'A' & 'B' (merged).

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 4th November 2003

No. A. 43011/26/99-Estt.—In pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs' Order E No. 13015/2/2003-IES dated 28.10.2003, the President is pleased to appoint Shri D. K. Mukhopadhyaya, (IES : 1971) as Economic Adviser (SAG) in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- w. e. f. the afternoon of 31st October, 2003 & until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A.12011/14/2002-Estt.—The President is pleased to promote Shri A. K. Sharma a regular Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) on adhoc basis in the scale of pay of Rs.8000-275-13500 with effect from the forenoon of 30th October, 2003 for a period of one year or till a regular incumbent is available, whichever is earlier.

2. The above ad-hoc appointment would not bestow on Shri A. K. Sharma any right to claim promotion, seniority, confirmation etc. in the grade of Assistant Director (Legal Metrology).

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 5th November 2003

No. A-32012/1/2002-Estt.—The President is pleased to promote Shri D. C. Devgune, a regular Assistant, as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on purely ad-hoc basis with effect from the forenoon of 5th November, 2003 for a period of one year or till a regular incumbent becomes available or until further orders, whichever is earliest.

2. This ad-hoc promotion would not bestow on Shri D. C. Devgune any right to claim regular promotion, seniority etc. in the grade of Section Officer.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-12011/9/2003-Estt.—The President is pleased to promote Shri A. S. Khan, a regular Assistant Director (Legal Metrology) as Deputy Director (Legal Metrology) in the Regional Reference Standard Laboratory, Ahmedabad on purely ad-hoc basis with effect from the afternoon of 31st October, 2003 for a period of one year or till the post of Deputy Director (Legal Metrology) is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earliest. The post of Deputy Director (Legal Metrology) in the Regional Reference Standard Laboratory, Ahmedabad is being temporarily operated from New Delhi.

2. The above ad-hoc appointment would not bestow upon Shri A. S. Khan, any claim for regular appointment, seniority, confirmation etc. in the grade of Deputy Director (Legal Metrology).

S. K. NAYAK, Under Secy.

The 7th November 2003

No. A. 12022/1/95-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O. M. No. 9/18/2003-EO(MM-1) dated 22.10.2003, the President is pleased to appoint Shri Charanjit Singh Khurana, a regular Under Secretary of CSS (SGSL : 90) as Deputy Secretary in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- w. e. f. the forenoon of 5th November, 2003 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-12022/3/96-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. Priyamvada, Deputy Director (Official language) in the Department of Consumer Affairs as Joint Director in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- w. e. f. 30.10.2003 (Forenoon) and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 28th October 2003

No. A 12023/6/96-Admn I (A)—In continuation of this Department's notification of even number dated 13th November, 2002, Sanction of the competent authority is conveyed to the extension of the term of deputation of Shri Brahm Pal, Assistant Accounts Officer of the Office of the Controller of Accounts, as Accounts Officer in the scale of Rs. 7450-225-11,500/- in the Department of Science and Technology for a further period of one year with effect from 08th October, 2003 or until further orders, whichever is earlier. After the expiry of the extended tenure, Shri Brahm Pal will stand repatriated to his parent cadre.

T. N. DWIVEDI, Under Secy.

New Delhi-110 016, the 31st October 2003

No. A. 19011/03/91-Admn I (A).—The President is pleased to retire the following Officers from the Government service on attaining the age of superannuation on 31st October, 2003 (AN).

1. Dr. A. K. Chakrabarty, Scientist 'G'.
2. Dr. A. Banerjee, Scientist 'G'.

K. S. NAPOLEAN, Director.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 30th October 2003

No. 17013/16/99-IFS. II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the under-mentioned twelve officers of the State Forest Service of Rajasthan, to the Indian Forest Service on the basis of the Select Lists for the years 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003 and to allocate them to the Rajasthan Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :

Select List of 1999 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
---------	------	---------------

2.	Shri Beni Ram	05.03.1947
----	---------------	------------

Select List of 2000 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
---------	------	---------------

1.	Shri Subhash Chand Sharma	15.08.1951
2.	Shri G.P.D. Vyas	21.03.1950
3.	Shri V. N. Sharma	31.07.1950

Select List of 2001 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri Sunayan Sharma	03.03.1950
2.	Shri N. C. Bakolia	01.09.1949
3.	Shri O. P. Sharma	03.07.1947

Select List of 2002 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri V. K. Salvan	20.11.1948
2.	Shri K. C. Sharma	31.05.1951
3.	Shri R. S. Shekhawat	30.10.1958

Select List of 2003 :

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri I. A. Mugal	30.11.1955
2.	Shri G. P. Saxena	17.04.1951

ASHOK KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110 011, the 31st October 2003

No. A 12025/180/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. M. S. Khrushchev to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21st September 1994 until further orders. Dr. M. S. Khrushchev was posted as Medical Officer under Ministry of Labour, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/120/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Mohandass Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 29th April 2002 until further orders. Dr. Mohandass Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 5th November 2003

No. A. 12025/465/92-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 9.11.1992 until further orders. Dr. Rakesh Kumar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 4th November 2003

No. A. 38012/9/2000-CHS II.—Consequent on retirement on attaining the age of superannuation Dr. (Smt.) Sushma Vashisth, an officer of the Supertime Grade in General Duty Medical Officer Sub-cadre of Central Health Service relinquished the charge of the post CMO (SAG) under GNCT, Delhi w.e.f. 30.09.2003 (A. N.).

N. K. SARWAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd September 2003

No. 44011/8/2003-E-I.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Sirohiwal, (CSL No. 3979) a CSS officer holding the post of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200, on personal upgradation basis, to Grade-I of the Central Secretariat Service purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 28.8.2003 pending preparation of Select List of Grade-I of CSS or until further orders whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment shall not confer any right on the officer for inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS and this appointment shall also not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List of Grade-I of CSS.

K. D. UPRETI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

New Delhi, the 3rd November 2003

No. 5-19/93-Fy. Admn.—The President is pleased to appoint Dr. P. Premalatha, Fishery Officer to the post of Assistant Director, General Central Service Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial) on regular basis in Integrated Fisheries Project, Cochin in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- with effect from 7.10.2003 (F. N.).

R. K. MEHTA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd October 2003

No. A. 12021/5/1998-E. II.—The President is pleased to appoint Shri Subhash Chander as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of this Ministry in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 22.05.2003 (F. N.).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A. 12021/5/1998-E. II.—The President is pleased to appoint Shri N. K. Rajpal as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of this Ministry in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 04.06.2003 (F. N.).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

No. A. 12021/1/1999-E. II.—The President is pleased to appoint Shri Y. P. Sachdeva as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the CSSS cadre of this Ministry in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 15.10.2003 (F. N.).

H. C. BAVEJA, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 13th October 2003

No. A-12025 (1)/1/2000-Estt.—The President is pleased to appoint Sh. M. Sunil Kumar substantive Lecturer in NISD, New Delhi to the post of Deputy Director (Programme) in the Drug Abuse Prevention Division of the Ministry of Social Justice & Empowerment in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (General Central Service Group A Gazetted Non-Ministerial) on deputation basis for a period of three years from 06.10.2003 to 05.10.2006 or until further orders whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

New Delhi-1, the 7th November 2003

No. 17014/32/96-SCD-IV.—On completion of his extended tenure of central deputation, the President is pleased to relieve Shri A. Luikham, IAS (MT-1981) from the post of Managing Director of the National Safai Karamcharis Finance & Development corporation (NSKFD), New Delhi, with effect from 9th of November, 2003 (A/N).

2. On completion of his tenure, Sh. A. Luikham, IAS (MT-81) is also sanctioned earned leave for the period from 10.11.2003 to 9.1.2004 as per the guidelines of DOPT contained in Q. M. No. 87 (38)-EO/87 (SM) dated 20.05.1987.

3. On expiry of the leave of Shri A. Luikham, his services are placed at the disposal of the Govt. of Manipur with effect from 10.1.2004 (F/N).

HASIB AHMAD, Director

F. No. 1601/02/2002-SCD IV.—In terms of article 56 of the Article of Association of NSFDC, the President is pleased to appoint Shri Mrityunjay Sahoo, in his capacity as Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Social Justice and Empowerment as Official Director on the Board of Directors of National Scheduled Castes Finance Development Corporation (NSFDC) in place of Shri Niranjan Pant, former JS & FA, Ministry of Social Justice and Empowerment with immediate effect and until further orders.

HASIB AHMAD, Director

F. No. 17014/01/2003-SCD IV.—In pursuance of Article 56 (i) & (iii) of Article of Association of National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation, the President is pleased to appoint Sn. P. Narayana Murthy, Joint Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment as Managing Director of the National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC) with effect from 10.11.2003 (forenoon), and until further orders.

Sh. P. Narayana Murthy, Joint Secretary will hold the charge of Managing Director, NSKFDC, in addition to his present work of Joint Secretary in the Ministry in place of Shri A. Luikham, who relinquishes the charge of MD, NSKFDC on completion of his tenure of central deputation on 09.11.2003.

HASIB AHMAD, Director

MINISTRY OF COMMUNICATION & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st October 2003

No. 4 (667)/2000-Pers. I—Shri Kailash N. Gupta on completion of his tenure shall relinquish the charge of the post of Controller of Certifying Authorities, with effect from 31.10.2003 (A. N.)

S. LAKSHMINARAYANAN, Additional Secy.

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 06th November 2003

No. 400-52/2002-STG-III—Shri I. C. Srivastava (Staff No. 273), an officer of Chief General Manager Grade of Indian Telecommunications Service Group 'A', who was working as Executive Director in Mahanagar Telephones Nigam Ltd., Mumbai, expired on 07.10.2003.

DR. VINCENT BARLA, Under Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 3rd October 2003

No. A. 19011/4/2003-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O. M. No. 4/28/2003-30(N) dated 1st October, 2003 Ms. Alka Jha, IPOs

(87) has assumed the charge of the post of Director in the Ministry of Tourism & Culture, Department of Culture with effect from the afternoon of 30.10.2003.

KRISHAN CHAND GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 5th November 2003

No. ERB-I/2000/10/28—Shri K. V. Singh, Section Officer, Railway Board, expired on 25.9.2003.

R. R. BHANDARI, Secy, Railway Board

No. ERB-I/2003/2/97—Shri K. Subramanian, a Director's Grade Officer of Railway Board Secretariat Service, is appointed to Grade Rs. 8,400-22,400/- as Executive Director Establishment (GC), Railway Board with effect from the forenoon of 30.10.2003.

R. R. BHANDARI, Secy., Railway Board
& Ex-Officio Additional Secy.

No. ERB-I/2003/2/98—Shri A. K. Bagchi, an SA Grade Officer of Railway Board Secretariat Service, is appointed to Grade Rs. 22,400-24,500/- as Adviser (Confidential), Railway Board with effect from the forenoon of 30.10.2003.

R. R. BHANDARI, Secy., Railway Board
& Ex-Officio Additional Secy.

No. ERB-I/2003/2/78—Shri Arun Dube, HAG/IRTS, is appointed as Additional Member (C & IS), Railway Board, in Grade Rs. 24,050-26,000/-, with effect from the afternoon of 28.10.2003.

R. R. BHANDARI, Secy., Railway Board
& Ex-Officio Additional Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 31st October 2003

No. A-32011/2/2003-Estt. II (Pt.)—The Competent Authority in the Ministry of Road Transport & Highways is pleased to appoint Shri P. K. Swain, Draftsman Grade I to the post of Chief Draftsman on ad hoc basis in the Headquarter's Office, New Delhi in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 30th October 2003 (FN).

A. P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 31st October 2003

No. 8/2003, File No. 22/494/2002-Admn.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri A. K.

Goswami, IAS (HP : 1966) Secretary (Water Resources) will retire from Government service with effect from the afternoon of 31.10.2003.

N. K. GUPTA, Under Secy.

voluntarily from Government service under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972 w.e.f. 05.11.2003 (FN).

V. K. SEKHRI, Under Secy.

The 4th November 2003

No. 9/2003 F. No. 2/4/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri V. K. Duggal, IAS (AGMU : 1968), as Secretary, Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 26,000/- (Fixed) with effect from the forenoon of 4.11.2003 until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 05th November 2003

No. 4/6/2003-Admn. II—The President is pleased to permit Shri D. Vidyarthi, A Grade I Officer of CSS to retire

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd November 2003

No. A-19011/1/2003-CLS-II—The President is pleased to appoint Shri Shrikant Shukla, Presiding Officer, CGIT-cum-Labour Court, Lucknow as Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur, as an additional charge with effect from the forenoon of 30th October 2003 till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever event occurs earlier.

Y.P. SEHGAL, Under Secy.